

जनपद बाराबंकी

दिनांक 24.04.2021

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23/24.04.2021 को कुल 11 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

→ थाना देवा पुलिस द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आनन्द विशाल पुत्र भगवानदीन 2. भगवानदीन पुत्र स्व0 नन्था निवासीगण गौरिया थाना देवा जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 24.04.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

→ थाना कुर्सी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 90 पौवा देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना कुर्सी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रिकू पुत्र सर्वजीत निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को दिनांक 23.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 90 पौवा देशी शराब विन्डीज ब्राण्ड बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुर्सी पर मु0अ0सं0 127/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

→ थाना घुंघटेर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को 103 शीशी देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना घुंघटेर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. मुकेश यादव पुत्र कमलेश यादव 2. सतीश यादव पुत्र मिश्रीलाल यादव निवासीगण भदरास थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी को दिनांक 23.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 103 शीशी देशी शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना घुंघटेर पर मु0अ0सं0 61-62/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

→ थाना मसौली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राकेश कुमार रावत पुत्र भरोसे रावत निवासी फतहापुर मजरे नेवला कसण्डा थाना मसौली जनपद बाराबंकी को दिनांक 23.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना मसौली पर मु0अ0सं0 88/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।